

प्रेषक,

अरविन्द कुमार उपाध्याय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-1,
उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
उन्नाव।

विषय- वर्ष 2019-2020 की गोपनीय चरित्रावली के स्तम्भ संख्या-1 (e) (iii) में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, उन्नाव द्वारा प्राचीनतम वादों के कम निस्तारण किये जाने के कारण दिये गये सुझाव के परिप्रेक्ष्य में दी गई प्रविष्टि के सम्बन्ध में अभ्यावेदन:-

महोदय,

ससम्मान अति विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि वर्ष 2019-2020 की गोपनीय चरित्रावली के स्तम्भ संख्या-1 (e) (iii) में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, उन्नाव द्वारा प्राचीनतम वादों के कम निस्तारण किये जाने के कारण दिये गये सुझाव के परिप्रेक्ष्य में दी गई प्रविष्टि के सम्बन्ध में निम्न तथ्य अति विनम्रतापूर्वक प्रकाश में लाना चाहता हूँ:-

1. वर्ष 2019-2020 के दौरान मेरे न्यायालय का परिवर्तन 6 बार हुआ है, जिसमें दिनांक 01.04.2019 से 15.04.2019 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-6, दिनांक 16.04.2019 से 09.05.2019 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7, दिनांक 10.05.2019 से 03.07.2019 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-6, दिनांक 04.07.2019 से 03.08.2019 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-5, दिनांक 04.08.2019 से 02.02.2020 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-4 एवं दिनांक 03.02.2020 से 31.03.2020 तक अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 में कार्य किया गया है। इस प्रकार 6 बार न्यायालय परिवर्तित होने और कुछ न्यायालयों में सीमित अवधि तक कार्य किये जाने के बावजूद मेरे द्वारा यथासम्भव प्राचीनतम वादों का निस्तारण किये जाने का प्रयास किया गया है।
2. यह भी निवेदन करना है कि इस दौरान एक माह तक मैं अपनी पुत्री की शादी के कारण अर्जित अवकाश पर रहा हूँ।
3. माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गई प्रविष्टि में विभिन्न श्रेणी के कुल 129 पुराने वादों के लम्बित होने, जिसमें 3 वादों के निस्तारण का उल्लेख किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा 129 प्राचीन वादों के लम्बित होने का जो उल्लेख किया गया है, वह विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्राचीन वादों के सम्मिलित करने के आधार पर किया गया है, जबकि विभिन्न न्यायालयों में मेरी नियुक्ति अवधि बहुत कम समय के लिए रही है। उन न्यायालयों में लम्बित प्राचीन वादों को एक साथ सम्मिलित करने के कारण प्राचीन वादों की



संख्या 129 हो गई है। जबकि मैं वर्ष 2019-2020 के समापन के समय कोर्ट संख्या-3 में कार्यरत रहा। वहां 5 वर्ष से अधिक प्राचीन वादों की संख्या 13 थी। इसके अतिरिक्त 5 सिविल अपील माननीय न्यायालय द्वारा स्थगित थी।

4. माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कुल 3 केस वर्ष 2011, 2014 व 2007 का मेरे द्वारा निर्णीत होना अंकित किया गया, जबकि वर्ष 2013 की दो एम0 ए0 सी0 टी0 भी मेरे द्वारा निर्णीत की गयी थी। इस प्रकार कुल 5 प्राचीनतम वादों का निस्तारण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें 4 वाद 5 वर्ष पुराने एवं 1 वाद 10 वर्ष पुराना है।

इस प्रकार सीमित अवधि में बार-बार न्यायालय परिवर्तित होने एवं पुत्री की शादी हेतु एक माह अर्जित अवकाश पर रहने के बावजूद मेरे द्वारा प्राचीनतम वादों के निस्तारण हेतु यथासंभव प्रयास किया गया है तथा निस्तारित किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विशेष परिस्थितियों में माननीय न्यायालय से सादर विनम्र अनुरोध है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, उन्नाव द्वारा गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2019-2020 की प्रविष्टि के स्तम्भ संख्या-1 (e) (iii) में दी गई प्रविष्टि को उन्मार्जित/निरस्त करने की कृपा करें।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरे अभ्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराकर गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2019-2020 की प्रविष्टि के स्तम्भ संख्या-1 (e) (iii) में दी गई प्रविष्टि को उन्मार्जित/निरस्त करने के संबंध में उचित आदेश करवाने की महती कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीय

A.K. Upadhyay
(अरविन्द कुमार उपाध्याय) 7/4/2021
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0-1, उन्नाव

दिनांक:-07.04.2021